



प्रेस विज्ञप्ति थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 02-08-2021



एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार व अपहता बरामद

जनपद गोरखपुर मे अपराध एवं अपराधियो पर पूर्णरूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के प्रवेक्षण मे व थानाध्यक्ष राज प्रकाश सिंह के टीम 30नि0 अनीश कुमार शर्मा मय हमराह का0अवधेश शुक्ला , म0का0अन्तिमा वर्मा , मु0अ0सं0 153/2021 धारा 363/366 आईपीसी मे वांछित अभियुक्त की सुराग रशी पता रशी हेतु क्षेत्र मे मामूर थे कि जरिए मुखबीर सूचना मिली कि साहब आपके मुकदमे का वांछित अभियुक्त व अपहता इस समय दो पहिया वाहन से कसरौल चौराहा पर मौजूद है यदि जल्दी किया जाये पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर हमराही कर्मचारीगण को मुखबिर खास की सूचना से अवगत कराते हुए मय मुखबिर के मौके से प्रस्थान कर कसरौल चौराहे पर आया। अभियुक्त उपरोक्त व अपहता कसरौल चौराहे पर मौजूद मिले। जिसे हमराही कर्मचारीगण की मदद से मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रामपाल यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव निवासी महदेईया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर उम्र करीब 21 वर्ष बताया। नाम पता तस्दीक कर कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 10.35 AM बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। तथा अपहता को म0का0अन्तिमा वर्मा द्वारा अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त कर थाना हाजा लाया गया। बरामद शुदा वाहन एच एफ डी लक्स यू0पी053 डी0बी1722 को कागज न दिखाने पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त-

रामपाल यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव निवासी महदेईया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

एक अदद वाहन HF डीलक्स UP 53DV 1722

गिरफ्तारी का स्थान-

ग्राम कसरौल चौराहा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. 30नि0 अनीश कुमार शर्मा
2. का0अवधेश शुक्ला
3. म0का0अन्तिमा वर्मा